

कोर सेक्टर उद्योग

प्रलिस के लयः

कोर सेक्टर, कोयला, प्राकृतक गैस, आठ कोर उद्योग सूचकांक (ICI), भारतीय रज़रव बैंक (RBI), औद्योगक उत्पादन सूचकांक

मेन्स के लयः

वृद्धि और वकिस, कोर सेक्टर की वृद्धि और इसका व्यापक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

[स्रोत: हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

फरवरी 2024 में भारत के [कोर सेक्टर आउटपुट](#) में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई और वकिस दर तीन महीने के उच्चतम स्तर 6.7% पर पहुँच गई। यह वृद्धि मुख्य रूप से [कोयला](#), [प्राकृतक गैस](#) और सीमेंट उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि से प्रेरित थी।

कोर सेक्टर क्या है?

परचयः

- भारत के मुख्य क्षेत्र में आठ कोर सेक्टर शामिल हैं: **कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतक गैस, रफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बजिली**।
 - कोर सेक्टर की वकिस दर भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। मुख्य क्षेत्र में मज़बूत वकिस दर अक्सर सकारात्मक आर्थिक दृष्टिकोण का संकेत देती है।
 - ICI राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एनएसओ द्वारा आईआईपी जारी करने से पहले 'कोर' प्रकृतिक उद्योगों के उत्पादन प्रदर्शन पर अग्रिम संकेत प्रदान करता है।
 - आठ प्रमुख उद्योगों से सामान्य आर्थिक गतिविधियों और औद्योगिक गतिविधियों के प्रभावित होने की संभावना है।

महत्त्वः

- कोर सेक्टर के प्रदर्शन को देश के समग्र औद्योगिक और आर्थिक प्रदर्शन का एक प्रमुख संकेतक माना जाता है, जो अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को मापने तथा भविष्य के आर्थिक रुझानों के पूर्वानुमान हेतु बैरोमीटर के रूप में कार्य करता है। उदाहरणतः स्टील निर्माण, ऑटोमोबाइल एवं मशीनरी के लिये एक महत्वपूर्ण सामग्री है। बजिली कारखानों, घरों व व्यवसायों को बजिली देने के लिये आवश्यक है।
 - कोर सेक्टर के उद्योगों का अन्य क्षेत्रों के साथ महत्वपूर्ण अंतरसंबंध होता है। यह परस्पर निर्भरता एक **गुणक प्रभाव** पैदा करती है, जहाँ मुख्य क्षेत्र की वृद्धि या संकुचन में परिवर्तन पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है।
 - किसी देश के बुनियादी ढाँचे के वकिस के लिये सेक्टर उद्योग आवश्यक हैं। सड़कों, पुलों और बजिली संयंत्रों के निर्माण हेतु स्टील, सीमेंट तथा बजिली का उत्पादन आवश्यक है।

कोर सेक्टर ग्रोथ क्या है?

- कोर सेक्टर ग्रोथ से तात्पर्य किसी निश्चित अवधि में किसी अर्थव्यवस्था के **प्रमुख उद्योगों से होने वाली वृद्धि दर अथवा आउटपुट/उत्पादन में वृद्धि** से है जिसे प्रायः वार्षिक अथवा मासिक आधार पर मापा जाता है।
- कोर उद्योग के समग्र सूचकांक (ICI) में उक्त संबंधित भार का उपयोग करके, इन व्यक्तित उद्योगों की वकिस दर को मिलाकर कोर सेक्टर की वृद्धि की गणना की जाती है।
- कोर सेक्टर की वृद्धि की गणना करने के लिये **कोर इंडस्ट्रीज़** के समग्र सूचकांक (ICI) में **प्रत्येक के वकिस को ध्यान में रखते हुए इन अलग-अलग उद्योगों की वकिस दर को संयोजित किया जाता है।**
- आठ प्रमुख उद्योगों का सूचकांक (ICI):

- **आठ प्रमुख उद्योगों का सूचकांक (Index of Eight Core Industries- ICI)** प्रत्येक माह तैयार किया जाता है और **आर्थिक सलाहकार (OEA), उद्योग संवर्धन तथा आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) एवं वाणज्य व उद्योग मंत्रालय** द्वारा जारी किया जाता है।
- ICI में विभिन्न घटक शामिल हैं जो सामूहिक रूप से भारत के औद्योगिक क्षेत्र के प्रदर्शन को दर्शाते हैं। इसमें नमिनलखित घटक शामिल हैं:
 - **कोयला:** कोकगि कोल के अतिरिक्त कोयला उत्पादन।
 - **वदियुत:** थर्मल, परमाणु, जल स्रोतों से वदियुत उत्पादन और भूतान से किया गया आयात।
 - **कच्चा तेल:** कच्चे तेल का कुल उत्पादन।
 - **सीमेंट:** बड़े संयंत्रों और लघु संयंत्रों दोनों में सीमेंट का कुल उत्पादन।
 - **प्राकृतिक गैस:** प्राकृतिक गैस का कुल उत्पादन।
 - **इस्पात:** केवल मशिन धातु और गैर-मशिन धातु इस्पात का उत्पादन।
 - **रफाइनरी उत्पाद:** कुल रफाइनरी उत्पादन।
 - **उर्वरक:** यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जटिल ग्रेड उर्वरक, एकल सुपरफॉस्फेट, आदि का उत्पादन।
- आठ प्रमुख उद्योगों का वर्तमान योगदान इस प्रकार है: पेट्रोलियम रफाइनरी उत्पाद (28.04%), वदियुत (19.85%), इस्पात (17.92%), कोयला (10.33%), कच्चा तेल (8.98%), प्राकृतिक गैस (6.88%), सीमेंट (5.37%), उर्वरक (2.63%)।
- किसी संदर्भ माह के लिये ICI एक महीने के समय अंतराल के साथ अगले महीने के आखिरी दिन जारी किया जाता है, जो **संदर्भ माह के लिये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) जारी होने से लगभग बारह दिन पूर्व** होता है।
- ICI के आधार वर्ष का चुनाव IIP के लिये आधार वर्ष की पसंद के अनुसार होता है।
 - ICI की वर्तमान शृंखला में **आधार वर्ष 2011-12** है।
- ICI का व्यापक रूप से नीति निर्माताओं द्वारा उपयोग किया जाता है, जिसमें वित्त मंत्रालय, अन्य मंत्रालय और विभाग, बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का वित्तपोषण करने वाले बैंक, **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)** तथा रेलवे बोर्ड शामिल हैं।

नोट:

- **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)** एक नश्चिती अवधि में अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्योग समूहों में विकास दर को मापने के लिये एक प्रमुख संकेतक है।
 - यह एक समग्र सूचकांक है जो चयनित आधार अवधि की तुलना में औद्योगिक उत्पादों के **उत्पादन की मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तन** दिखाता है।
 - औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में शामिल वस्तुओं का भार 40 प्रतिशत से अधिक आठ कोर उद्योगों से आता है।
- संदर्भ माह समाप्त होने के छह सप्ताह बाद **केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO)** द्वारा मासिक रूप से सूचकांक संकलित और प्रकाशित किया जाता है। यह सरकार के लिये नीति नियोजन और विश्लेषण हेतु महत्वपूर्ण है।
 - IIP का स्तर **वर्तमान आधार वर्ष 2011-12** के साथ एक संदर्भ अवधि की तुलना में औद्योगिक उत्पादन की स्थिति को दर्शाने वाली एक अमूर्त संख्या है।

कोर सेक्टर में हालिया रुझान क्या हैं?

- **फरवरी 2024** में भारत के आठ प्रमुख क्षेत्रों की **उत्पादन वृद्धि में 6.7% की उल्लेखनीय वृद्धि** देखी गई।
 - यह वृद्धि मुख्य रूप से कोयला, प्राकृतिक गैस एवं सीमेंट उत्पादन में दोहरे अंक की वृद्धि के कारण हुई।
- समग्र वृद्धि के बावजूद, फरवरी 2024 में उर्वरकों के उत्पादन में 9.5% की गिरावट आई, जो मई 2021 के बाद से सर्वाधिक तीव्र गिरावट है।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये मुख्य क्षेत्र में संचयी वृद्धि 7.7% पर मज़बूती के साथ रही है, जो वर्ष 2022-2023 में दर्ज 6.8% की वृद्धि दर को पार कर गई है। यह औद्योगिक गतिविधि में समग्र लचीलेपन एवं सकारात्मक गति को दर्शाता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. 'आठ मूल उद्योगों के सूचकांक (इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्रीज़)' में नमिनलखित में से कसिको सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है? (2015)

- कोयला उत्पादन
- वदियुत् उत्पादन
- उर्वरक उत्पादन
- इस्पात उत्पादन

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. "सुधार के बाद की अवधि में औद्योगिक विकास दर सकल-घरेलू-उत्पाद (जीडीपी) की समग्र वृद्धि से पीछे रह गई है" कारण बताइये। औद्योगिक नीति में हालिया बदलाव औद्योगिक विकास दर को बढ़ाने में कहाँ तक सक्षम हैं? (2017)

प्रश्न. आम तौर पर देश कृषि से उद्योग और फिर बाद में सेवाओं की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं, लेकिन भारत सीधे कृषि से सेवाओं की ओर स्थानांतरित हो गया। देश में उद्योग की तुलना में सेवाओं की भारी वृद्धि के क्या कारण हैं? क्या मज़बूत औद्योगिक आधार के बिना भारत एक विकसित देश बन सकता है? (2014)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/core-sector-industries-1>

